



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 524] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 1981/अग्रहायण 6, 1903
No. 524] NEW DELHI, FRIDAY, NOV. 27, 1981/AGRAHAYANA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का०आ० 829(अ) —आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और प्रागे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

- 1 इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 34वां संशोधन आदेश, 1981 भी संज्ञा दी जाये।
- 2 निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में—

(क) अनुसूची I, भाग 'ख', में क्रम सं० 103 के पश्चात् क्रम सं० 104 के रूप में निम्नलिखित का जोड़ा जाएगा:—

"104 मजिक्ल ट्रेडिंग्स"।

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस 3 में क्रम सं० 84 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को निम्न प्रकार से जोड़ा जायेगा :—

1	2	3	4
“85.	सर्जिकल ड्रेसिंग्स	ख-104	निर्यात की अनुमति इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स का प्रत्येक बैच उत्तम कोटि का है और उसका परीक्षण कर लिया गया है और उत्तम कोटि का पाया गया है। इसके साथ अधिष्ठान्त भेषज नियम, 1945 के भाग 15(क) के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन वाली संस्था का प्रमाण-पत्र होगा।”

[मिसिल सं० 11/9/81-ई० आई/सं० ई० (सी०)ओ-1977/एम (223)]

मणि नारायण स्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Deptt. of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 27th November, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 829(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty fourth Amendment Order, 1981.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

(a) In Schedule I, part ‘B’ the following shall be added after S.No. 103, as Sl. No. 104 :—

“104. Surgical dressings.”

